



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1934 (श०)
(सं० पटना 563) पटना, वृहस्पतिवार, 18 अक्टूबर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

17 अक्टूबर 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-09/2012 खंड-9663—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपराकोठी व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन उनके द्वारा अंगीकृत उपविधियों के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि उक्त व्यापार मंडल सहयोग समिति में अध्यक्ष के पद एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के पदों के लिए निर्वाचन कराया जायेगा तथा सदस्य के पदों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन

प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार पिपराकोठी व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 12.11.2012 (सोमवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित व्यापार मंडल सहयोग समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने व्यापार मंडल सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 9529 दिनांक 20.09.2012 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 30.06.2012 निर्धारित की गयी है।

पिपराकोठी व्यापार मंडल सहयोग समिति के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 18.10.2012 को संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-2**) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 563-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>